

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी
पुस्तक में कुल 100 पृष्ठों पर माप है जो
अधिक से अधिक है। एल.एम.एम. अमिता
शामीण कार्य अवर प्रमोडल बेसिस
को 100/100 योजना अवर निर्मा-चौक
से कोई भी योजना पथ निर्माण कार्य हेतु निर्गत
किया गया।

[Signature]
9/5/20

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमोडल, बेसिस

यह मापी पुस्तिका कनिष्ठ अभियंता
श्री सुनील कुमार शामीण कार्य अवर
प्रमोडल बेसिस की पुनः निष्पत्ति है।
आगत है।

[Signature]
9.9.20

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमोडल बेसिस

9/9/20

Sch. XLV - Form No. 134

_____ DIVISION

_____ SUB-DIVISION

Measurement Book

No. _____

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

ABSTRACT OF COST			
① 1/2	Plv Const. of masonry Bench		
	road as per — to —		
	1.650 K.M. — to T.M.B. line — ①		
	Rs = 11364238 K.M. — Rs =	1875127	
② 2/3	Plv clearing and grubbing of		
	land as per — to —		
	0.500 Hect. — to T.M.B. line — ①		
	Rs = 4988923/Hect. — Rs =	249052	
③ 3/4	Plv Const. of embankment		
	upto 1000 M — to —		
	612.55 M — to T.M.B. line — ①		
	Rs = 1872921 M — Rs =	1151122	

$$R = 1,58,768 = 50$$

cf

Attended

Am 94
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. Works Div. Bettiah

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(4/5) Plv Contg Embank obd to from subgrade to.					
1376.32 H to TMB. P. (11)					
CB = 189.85 H				B = 2,61,228.70	
(5/6) Plv Contg Embank obd to from 100m to.					
1429.29 H to TMB. P. (12)					
CB = 143.08 H				B = 2,04,503.70	
(6/7) Plv excavation for Road way cutting to.					
108.38 H to TMB. P. (12)					
CB = 82.02 H				B = 8888.70	
(7/9) Plv Contg G.S. S by well side to.					
973.20 H to TMB. P. (12)					
CB = 2876.87 H				B = 27,99,770.70	
(8/10) Plv Laying spreading of Comp. masonry grid to.					
42.19 H to TMB. P. (12)					
421.875 H to TMB. P. (15)					
464.065 H					
CB = 3591.63 H				B = 16,66,750.70	
(9/14) Plv Contg unreinforced dowel joint floor H/S					
as per to					
Continuation					B = 50,99,905.70

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
90.0 m ² to TMB. P. No. (15)					
CB = 7578.04 m ² — B = 682,024.52					
(10/23) Plv and Paving of Muzap					
from Road to —					
02 m ² rate TMB. P. No. (12)					
CB = 11,473.01 m ² — B = 22,946.00					
(11/20) Plv earthwork excavation					
in foundation to —					
93.90 m ² to TMB. P. No. (12)					
CB = 28,227 m ² — B = 26,828.00					
(12/31) Plv Sanit Pilling in					
to —					
4.11 m ² to TMB. P. (12)					
CB = 4,556.21 m ² — B = 18,730.00					
(13/22) Plv P.C.C. M.S. in					
open foundation to —					
6.31 m ² to TMB. P. No. (12)					
CB = 65,890.12 m ² — B = 42,577.00					
(14/28) Plv P.C.C. M.S. in Box					
Cell as per to —					
37.350 m ² to TMB. P. No. (13)					
CB = 8485.13 m ² — B = 3,16,920.00					
(15/40) Plv interphases in boundary					
Stone Masonry to —					
80.0 m ² rate TMB. P. No. (13)					
CB = 103.45 m ² — B = 3102.00					

Continuation

$$B = 61,95,175.00$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(16/41) Riv Supply with and Ang					
Hyd Bars as per spec					
2.69 MT to T.M.B. P.No. (13)					
@ 77015 = 55 MT					62 207,172.2
					R ₂ 64,02,347.2
Less 10% Bar as per spec					R ₁ 64,02,352.2
					R ₂ 57,62,112.2
Less Inverted Bar					R ₁ 30,63,000.2
					R ₂ 26,99,112.2
Sum					
02/10/2020					
J.E					

Continuation

Attested

09/12/20
 EXECUTIVE ENGINEER
 R.W.D. Works Div. Bettiah